



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-15)

11 हजार स्कूली बच्चों ने ली स्वच्छता की शपथ

महापौर डॉ. अशोक लाहोटी के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर शहर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 11 हजार बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई।

स्वच्छता शपथ कार्यक्रम में सोफिया स्कूल, जयपुरिया विद्यालय, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल, एमपीएस, जवाहर नगर में स्कूली बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई और स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों से स्वच्छता शपथ पत्र भी भरवाए गए और उन्हें स्वच्छता एमओयूडी मोबाइल एप के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही बच्चों को नीला एवं हरा डस्टबिन इस्तेमाल करने के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों को प्रेरित किया गया कि वे कचरा सड़क पर यहां वहां न फेंकें।

उल्लेखनीय है कि सुबह सभी विद्यालयों में एसेम्बली पॉइन्ट पर लगभग 11 हजार बच्चों से स्वच्छता शपथ पत्र भरवाए गए एवं स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी बातों को विस्तृत रूप से समझाया गया। इस अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं ने शपथ ली कि हम अपने आस-पास ना तो गन्दगी करेंगे एवं ना ही गन्दगी करने देंगे।

इस अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं को स्वच्छता सर्वेक्षण के सिटीजन फीडबैक के छह प्रश्नों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

सभी विद्यालयों के प्रबंधन ने 5-5 स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर जल्द से जल्द बनाने के बात कही एवं इंटर स्कूल पोस्टर कॉम्पीटिशन की भी चर्चा की।

इस अवसर पर सभी स्कूलों ने नगर निगम जयपुर के स्वच्छता के कार्यों की सराहना की।

नुक्कड़ नाटक का आयोजन

नगर निगम जयपुर द्वारा वॉल सिटी में गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी, तालकटोरा कॉलोनी एवं रामगढ़ मोड पर हर दुकान पर स्वच्छता शपथ-पत्र भरवाए गए। इस अवसर पर रंगमंच के युवा कलाकारों ने जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया।